

प्रेस नोट

डॉ० विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा के निर्देशन में आज दिनांक 17.10.2019 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अभियुक्त रफीक पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मंसूरपुर माफी थाना असमोली जनपद संभल को चोरी की मोटर साइकिल के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सैदनगली पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुठभेड में अभियुक्त फरीद पुत्र असीम निवासी भीम रोड ढबारसी थाना आदमपुर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 खोका व 01 खोका कारतूस के गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम सकतपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके सम्बन्ध में थाने आदमपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त से चोरी का माल बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा ग्राम गारापुर थाना सैदनगली में दूध के डेरी में चोरी करने की घटना का इकबाल किया। चोरी कि गयी बोड मशीन को अभियुक्त की निशादेही पर बरामद की। अभियुक्त द्वारा ग्राम सकतपुर में धान चोरी करने, थाना बिलारी जनपद मुरादबाद में एक फोटो गैलरी में चोरी करने की घटना का इकबाल किया। अभियुक्त की निशादेही पर उपरोक्त घटनाओं से सम्बन्धित चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।
- थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त हरीशचन्द्र पुत्र गोपाली निवासी ग्राम पतेईखालसा थाना डिडौली को 10 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों का चालान 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।

